

PD-355-S.E.-CV-19

M.A. (3rd Semester)

Examination, Dec.-2020

Paper-IV

PATANJAL YOG DARSHAN YA SWAMI VIVEKANAND DARSHAN

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

नोट : दोनों खण्डों से निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके दाहिनी ओर अंकित हैं।

Note : Answer from both the Sections as directed. The figures in the right-hand margin indicate marks.

खण्ड/Section-A

1. निम्नलिखित अतिलघु-उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

1x10=10

Answer the following very short answer type questions:-

- (a) समाधि के कौन-कौन से भेद हैं ?

What are the kinds of Samadhi there?

- (b) योग दर्शन के अनुसार दुख के कितने प्रकार हैं ?

How many kinds of suffering according to yoga philosophy?

- (c) पाँच आधुनिक भारत के योगियों के नाम लिखिए।

Write the name of five modern Indian yogies.

- (d) प्राणायाम के कौन-कौन से अंग हैं ?

What are the parts of pranayama?

- (e) पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ क्या है ?

What is the meaning of yoga according to Patanjali?

- (f) 'प्रथम योग विश्वविद्यालय' कहाँ स्थापित है ?

Where is established the first yoga university?

- (g) किन्हीं पाँच आसनों के नाम लिखिए।

Write any five name of Asanas.

- (h) 'विश्व योगदिवस' कब मनाया जाता है ?

When is world yoga Day celebrated?

- (i) प्रकृति के कितने गुण हैं ? नाम लिखिए।

How many Gunas are in prakriti? Write name.

- (j) योग सूत्र के रचयिता कौन हैं ?

Who is the author of yogasutra?

2. निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिये :-

2x5=10

Answer the following short answer type questions:-

- (a) योगसूत्र में कितने अध्याय हैं ? नाम लिखिए।

How many chapters are of yogasutra? Write name.

- (b) पंचक्लेश किसे कहते हैं ?

What is Panchklesha?

- (c) 'यम' से क्या तात्पर्य है ?

What is mean by yama?

- (d) संयम का अर्थ क्या है ?

What is the meaning of Sanyama?

- (e) 'सिद्धि' कितने प्रकार की है ?

How many types are of Siddhi?

निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

Answer the following long answer type question.

3. योग दर्शन द्वारा बतलायी गयी चित्त की भूमियों का वर्णन कीजिए।

Describe the various levels of mental life as expounded by yoga philosophy.

अथवा / OR

चित्त के स्वरूप की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए।

Discuss critically the nature of Chitta.

4. समाधि की विभिन्न अवस्थाओं को संक्षेप में समझाइये।

Explain in brief the different stages of Samadhi.

अथवा / OR

योग दर्शन के अनुसार दुख के स्वरूप की पूर्ण व्याख्या कीजिए।

Explain fully the nature of suffering according to yoga philosophy.

5. आसन और प्राणायाम के महत्व को दर्शाइये।

Show the importance of Asana and Pranayama.

अथवा / OR

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:- Write short notes on the following:-

(i) नियम Niyama (ii) प्रत्याहार Pratyahara

6. योग दर्शन के अनुसार कमवाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए।

Write an essay on the Karmavada according to yoga philosophy.

अथवा / OR

योग के अंतरंग साधन के रूप में धारणा और ध्यान की विवेचना करें।

Discuss the Dharna and Dhyana as an internal means of yoga.

7. योग दर्शन के संदर्भ में कैवल्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।

Bring out the concept of Kaivalya in context of yoga philosophy.

अथवा / OR

योग दर्शन में ईश्वर का क्या स्थान है ? संक्षिप्त विवेचना कीजिए।

What is the place of God in yoga philosophy? Discuss briefly.